



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2  
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12, 2005/कार्तिक 21, 1927

No. 18]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005/KARTIKA 21, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2005

सं. 10/1/2005-एम एंड जी.—श्री जय प्रकाश नारायण  
यादव 6-11-2005 से मंत्रिपरिषद् में राज्य मंत्री नहीं रहे हैं।

पी. वी. भिडे, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2005

No. 10/1/2005-M & G.—Shri Jay Prakash Narayan  
Yadav has, with effect from 6-11-2005, ceased to be Minister  
of State in the Council of Ministers.

P. V. BHIDE, Addl. Secy.